

MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) CIN L32101DL1986GOI023501

Registered and Corporate Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan 5th Floor, 9 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003. Tel: 011-24319020, Fax: 011-24324243, Email ID mtmlcsco@gmail.com Website: www.mtml.net.in/www.bol.net.in,

MTNL/SECTT/SE/2023 September 26, 2023

To
The Listing Department,
Bombay Stock Exchange (BSE)
National Stock Exchange (NSE)

Ref: BSE Scrip Code: 500108/ NSE Symbol: MTNL

SUB: COMPLIANCE WITH REGULATION 30 & 47 OF SEBI (LODR), 2015 SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT- reg

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Please find enclosed the copies of newspaper advertisement published on 26.09.2023, in the Newspaper Financial Express all edition (English Newspaper) and Jansatta Delhi edition (Hindi Newspaper), regarding modification to addendum to resolution no.5 and resolution no.5 in the Notice of 37th Annual General Meeting of MTNL.

Further, in terms of Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the aforesaid modification to addendum to resolution no.5 and resolution no.5 in the Notice of 37th Annual General Meeting of MTNL is being uploaded on the website of the Company (www.mtnl.net.in).

Kindly take the above information on record.

Thanking You, Yours faithfully

> RATAN MANI SUMIT COMPANY SECRETARY

FINANCIAL EXPRESS

like?

10-SECOND RATES AT ₹30 LAKH VS ₹15 LAKH IN 2019

Cricket World Cup spot advertising rates double

VIVEAT SUSAN PINTO Mumbai, September 25

AS CRICKET FANS wait for the start of the 2023 Men's ODI World Cup next week, advertising on the property is gaining traction. According to media industry insiders, spot advertising rates for India matches and knockout matches on Star Sports have more than doubled since the 2019 Cricket World Cup, reaching ₹30 lakh per 10 seconds. Star Sports is part of the Disney Star network, which is broadcasting the tournament on TV and digital this year.

Disney+ Hotstar is also going for the kill, since the tournament will be broadcast for free on mobile devices. The asking rate on digital for the 2023 Cricket World is ₹230-250 per thousand impressions or cost per mille (CPM), say media industry sources. This again is 64-67% higher than the digital rate during the 2019 Cricket World Cup, which was around ₹140-150 per thousand impressions.

A mail sent to Disney Star elicited no response. But media experts say that the 2023 Cricket World Cup is happening during the Dusshera-Diwali period, which has excited advertisers.

On Monday, the broadcaster said that there was a 34% growth in television ratings for the Asia Cup 2023, compared to 2018. Quoting

ON A STRONG ■ Asia Cup which concluded **WICKET** on Sept 17, saw 34% Disney Star using digital growth in TV andTVto ratings versus reach urban 2018 edition and rural consumers during Cricket World Cup ₹2,500 cr riding on Cricket World Cup this year, nearly twice the amount spent in 2019

266 million 73.5 billion minutes. viewers tuned in to Star Sports live broadcast of Asia Cup, excluding final match

data from the Broadcast Audience Research Council of India (BARC), Disney Star said a record 266 million viewers tuned in to the Star Sports live broadcast of the tournament, excluding the final match held on September 17. India defeated Sri Lanka to win the Asia Cup for the eighth time.

■Total viewing time at

match; up 75% versus

excluding final

2018 edition

Total viewing time for the tournament increased by 75% compared to the previous edition in 2018, with over 73.5 billion minutes watched, excluding the final match, Disney Star

said. "The cricket season has given a fillip to the festive quarter this year," says Sajal Gupta, CEO at Gurugrambased Kiaos Marketing.

Media industry estimates say almost ₹2,500 crore of advertising money is riding on the ODI Men's World Cup this year, nearly twice the amount spent four years ago. Among the sponsors who've tied up with Disney Star network this year include Mahindra & Mahindra, Hindustan Unilever, Coca-Cola, Nerolac

published its first notice on

September 4, and a corrigen-

dum on September 16, which

was only 13 days before the

AGM instead of the stipulated

21 days' prior notice. Detailed

disclosures were also not

on September 16, the firm did

not add any additional items,

but only made a few insertions

shareholders better clarity

and transparency and as a

good corporate governance

practice, it said in an email

reply to FE.

This was done to provide

in the existing resolutions.

In its corrigendum issued

made, the proxy firm said.

Paints, Dream11, Amazon and United Breweries, media industry sources said.

Disney Star is in discussions with more companies as advertiser interest continues to remain high. The broadcaster is targeting both rural and urban consumers using a combination of television and digital, it told media agency executives in its presentations to them. The broadcaster has also offered over 75 targeting options for advertisers, based on demographics, geography, language and other factors. This will be rolled out on TV and digital.

"We see a strong synergistic resonance between our SUVs and tractor brands and the vibrant spirit of Indian cricket. Through this sponsorship and our upcoming engagements, we aim to create cherished memories and strong bonds with our customers," Rajesh Jejurikar, executive director & CEO (Auto & Farm Sectors), Mahindra & Mahindra, said.

Coca-Cola has already unveiled its Cricket World Cup campaign for Brand Thums Up this month, featuring Team India players Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Mohammed Siraj and Team India captain Rohit Sharma.

The campaign called 'Thums Up Utha, India India Macha' focuses on the relentless determination of players, Arnab Roy, vice-president, marketing, Coca-Cola India and South West Asia, said.

crore bracket. We have achieved our pre-Covid level of sales. Also, there is hardly any ready-to-move-in inventory left.

• ABHISHEK KAPOOR, GROUP CEO, PURAVANKARA

'We have a healthy pipeline of launches this year'

Luxury and plotted developments seem to have caught fancy of buyers and realtors alike. How do you view it?

> Luxury is doing extremely well. But the term luxury varies from market to market. Bigger-sized homes are gaining traction across cities.We have couple of pro-

jects in the category in select cities.

What's the debt on your books?

sively on this segment in 2021.

We have a net debt of ₹2,119 crore at the end of June quarter. This compares favourably against our projected surplus of ₹11,200 crore.

How does your launch pipeline look

We have planned a total of twelve

projects have already been launched. We

land bank totalling 43 million sqft.

launches in the current year. Of this, three

plan to develop 15 million sq ft. We have a

What's the update on separate division

We launched plotted development in

to cater to the plotted development?

May 2020. About 80% of it was sold out

during the pandemic. Realising that it

had a market potential, we carved out a

vertical — Purva Land — to focus exclu-

Which are the markets you are looking at consolidating your position I?

We are focusing on Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kochi and Pune. We are pursuing redevelopment opportunity in the Mumbai market.

We are also in talks to enter partner-

ships for redevelopment projects.

Serentica secures ₹5,600-cr funding from REC and PFC

SERENTICA RENEWABLES a statement. "This transaction ₹5,600 crore funding from state-owned firms REC and PFC. It has raised ₹3,000 crore debt funding from REC and ₹2,600 crore debt funding

from PFC, the company said in

Puravankara, a Bengaluru-based devel-

oper, has lined up launches of 12 residen-

tial projects this year. Abhishek Kapoor,

group CEO, tells Bindu D Menon that the

company has a healthy cash flow on the

back of strong demand for residential

The real estate sector is seeing

a consolidation so most develop-

ers are expected to do well. The sec-

ond half of the year is always better

owing to the festival season demand. Our

mance. Sales were up 119% on a year-on-

June quarter and average realisation per

business is showing improved perfor-

year basis at ₹1,126 crore in the April-

What is the inventory position?

inventory is low. For instance,

Bengaluru has less than nine-

month of inventory. Our new

launches have seen a phenome-

mately 630 out of the 780 resi-

dential apartments in the ₹65-1

We have already sold approxi-

For established developers,

How do you see the real estate

projects. Excerpts:

market today?

sq ft stood at ₹8,277.

nal response.

ON Monday said it has raised is in line with REC's expanding role in funding green projects and position itself as the focal agency for energy transition," Vivek Kumar Dewangan, Chairman & Managing Director, REC said.

MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED (A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE) CIN: L32101DL1986GOI023501 Regd. and Corporate Office: Mahanagar Doorsanchar Sadan, 5th Floor, 9 CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003. Tel: 011-24319020,

MODIFICATION TO ADDENDUM TO RESOLUTION NO. 5 & RESOLUTION NO.5 IN THE NOTICE OF 37[™] ANNUAL GENERAL MEETING.

This has reference to our letter of even no dated 31.08.2023 & 06.09.2023 informing about 37" Annual General Meeting (AGM) of the Companscheduled to be held on Friday, 29th September 2023 at 11:30 A.M. through VC/OVAM and a modification to Addendum to resolution no.5 and resolution no.5 in the Notice of 37" AGM is being circulated electronically to the members to whom Notice of 37th AGM was sent, in terms of provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder

The Copy of modification to Addendum to resolution no.5 and resolution no.5 in the Notice of 37" AGM would be available on the website of the Company at

MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED ("the Company") had issued Notice dated 31" August 2023 ("AGM Notice") & Addendum of 37" AGM dated 06.09.2023 for convening of the 37" Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OVAM).

The 37" AGM Notice and Addendum to Notice of 37" AGM had already been sent on 04.09.2023 & 06.09.2023 by Email to the Members who have registered their e-mail address with the Company or with their respective Depository Participant (DP)

Now, modification to Addendum to resolution no.5 and resolution no.5 in the Notice of 37° AGM containing- "TO APPROVE THE ISSUE OF NON-CONVERTIBLE DEBENTURES ON PRIVATE PLACEMENT BASIS" which has been revised by your company and shall form an integral part of the Original Notice and Addendum to the Notice of 37th AGM dated 31th August 2023 and 06" September, 2023 respectively, of the Company and the notes provided therein, for all purposes.

Accordingly, all the concerned Shareholders, Stock Exchanges, Depositories Registrar & Transfer Agent, Agencies appointed for E-Voting, Other Authorities, Regulators and all other Concerned Persons are requested to

The said modification to Addendum is also available on the website of the Company i.e. www.mtnl.net.in and website of stock exchanges i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com

For MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED

Place: New Delhi

Date: 25.09.2023

(RATAN MANI SUMIT COMPANY SECRETARY

Proxy advisory firms differ on Finolex AGM proposals

GEETA NAIR & RAJESH KURUP

executive directors.

Pune/Mumbai, September 25

PROXY ADVISORY FIRM InGovern Research Services has recommended shareholders of Finolex Cables to "defer" two resolutions, including reappointment of Deepak Chhabria as executive chairman for a five-year term. The firm also sought to defer payment of commission to non-

On its part, Finolex Cables termed the suggestions "biased". However, another proxy advisory firm, Institutional Investor Advisory Services (IiAS), green-lighted all of the company's six resolutions, which included adoption of financial statements, declaring of final dividend of ₹7 per share and reappointment of directors The advisories were issued ahead of the Punebased company's AGM on Friday (September 29).

According to InGovern, there is no cap on the overall compensation being paid to Chhabria, and the perquisites and other retirement compensation have not been quantified. While the bulk of the compensation would be the commission component, the performance criteria to arrive at the commission have not been clearly outlined.

Further, there is no mention of any exercise undertaken to

AYANTI BERA

Bengaluru, September 26

MORE THAN HALF of tech

professionals across the

world, mostly the senior lead-

ership, believe that adopting

technologies like artificial

intelligence (AI) and machine

learning (ML) will be impor-

tant in achieving business

goals over the next three years.

that 57% of their 2,100

respondents, which primarily

include C-suite executives,

board members, department

heads and directors, believe AI

and ML are important for

have been doubling down on

AI research and integration of

machine learning into their

Indian tech companies

their near-term objectives.

A study by KPMG showed

AI, ML adoption can

boost profitability

for IT firms: Study

AHEAD OF AGM

■ InGovern Research Services has recommended shareholders to 'defer' two resolutions

■ Institutional Investor Advisory Services green-lights all of the six resolutions ahead of Finolex AGM on Sept 29

benchmark the compensation being paid to Chhabria to industry peers, it said. The advisory firm has sought shareholders to defer the proposal and represent it with a proper 21 days' notice period. The board of Finolex Cables had proposed to re-

appoint Deepak Chhabria as executive chairman for a five-year period from July 1, 2023-June 30, 2028. Chhabria was appointed full-time director in 1986 and later took over as the executive chairman on July 1,2013. In Govern also recommended shareholders to defer payment of commission to non-executive directors. InGovern also cited inadequate notice time to shareholders and the changes in resolutions

Finolex Cables had

through a corrigendum, as

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank SHARE DEPARTMENT, BOARD & CO-ORDINATION DIVISION

PLOT NO. 4, SECTOR -10, DWARKA, NEW DELHI-110075 Email Id: hosd@pnb.co.in, Tel.: 011-28044857

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificate of the Bank mentioned below has been reported lost/misplaced/stolen and the registered holder thereof / claimant thereto has requested for issue of duplicate share certificate:

Sr. No.	Name of Shareholder/Claimant	Folio No.	Share Certificate No.	Distinctive No. of Shares	No. of Shares
M,	Krishan Lal Manchanda (deceased) Pramod Manchanda (Claimant)	0119290	007727	6501491- 6501990	500

In case any person has any claim in respect of the said shares/any objection(s) for the issuance of duplicate certificate in favour of the above stated shareholder/ claimant, he/she/they should lodge their claim or objection within 15 days of the date of publication of this Notice. If within 15 days from the date hereof no claim is received by the Bank in respect of the said certificate, duplicate share certificate/letter of confirmation will be issued. The public is hereby cautioned against dealing in any way with the above mentioned certificate(s).

Date: 25.09.2023 Place: New Delhi For Punjab National Bank (Ekta Pasricha) Company Secretary

Nurturing Progress. Setting Milestones

8th Annual General Meeting of NMDC Steel Limited

Dear Shareholders, With great pride, I welcome you to the 8th Annual General

Meeting of your Company, the first AGM post the demerger; after the listing of equity shares on BSE, NSE and CSE; and since the Company entered the glorious league of Indian Steelmakers by operationalizing the Steel Plant. The global economy is slowing and growth trajectories are diverging across regions amidst moderating but above target inflation, tight financial conditions, simmering geopolitical conflicts, and geo-economic fragmentation. While the global growth is projected to fall from 3.5 percent in 2022 to 3 percent in both CY2023 and CY2024 on an annual average basis, the domestic economic activity is maintaining resilience. It is expected that India will grow at 6.1 -Global Steel production stood at 1885 MT in CY 2022 where China

accounted for -54% of global crude steel production, followed by India, Japan, US, and Russia collectively producing - 19% Though the global steel production observed 4% decline compared to CPLY (CY21 global production - 1962 MT), India's production Duly following procedure as per statutory provisions, Ministry of increased by 5.5% during the same period (from ~118 MT in CY21 to ~125 MT in CY22). India's per capita consumption of steel is growing at the highest rate, after China, amongst other countries across the globe. India has exhibited an appreciable growth with a CAGR of 3.5% from 70.7 Kg in 2018 to 81.1 Kg in 2022 against a global decline of 0.2% which majorly got affected due to the impact of Covid-19. With increased push on infrastructure, housing, multi-modal connectivity projects. The Demerged Company, NMDC then issued equity shares in the amongst others, and increasing urbanization driving the ratio 1:1 to its shareholders, unlocking their inherent wealth. consumption, the domestic steel industry's future remains healthy. The Government of India charted a roadmap to augment India's Steel production capacity to 300 MTPA by 2030.

To fulfill this vision, green field steel plants were being promoted in mineral rich states of Chhattisgarh, Jharkhand, Karnataka and Odisha. In honour of NMDC's long standing relationship with Chhattisgarh and its people, we began our journey to set up a 3 MTPA capacity greenfield Integrated Steel Plant at Nagarnar, Chhattisgarh.





accorded in-principle approval for demerger of NISP into a

Corporate Affairs (MCA) vide Order dated 6th October, 2022 granted approval to the Scheme of Arrangement for demerger of NMDC Iron & Steel Plant business undertaking from NMDC Limited ('Demerged Company') to NMDC Steel Limited ('Resulting Company'). The appointed date for the demerger was 1st April, 2021 and the Scheme was operative with effect from On 24th August 2023, NMDC Steel Limited produced its final 13th October, 2022

These equity shares were listed on NSE, BSE and CSE and admitted to dealings with effect from 20th February, 2023. Accordingly, your Company, erstwhile a Subsidiary of NMDC. transformed itself into a listed entity with equity base of Rs. Automotive Steel

The Company had not commenced its commercial production as on 31st March 2023, hence no profit/loss was declared for the financial year 2022-23. However, with the steely resolve of the Management, employees and workmen and with constant support from the Administrative Ministry and NMDC Management, the Steel Plant achieved the following milestones -NSL commissioned its Coke Oven Battery 1 on 28th October 2022 and Coke Oven Battery 2 on 24th April 2023. The two coke oven batteries, 7 meter tall and with 67 ovens each, can produce gross coke in the order of 1.76 million tonnes annually

Our 460 square meter Sinter Plant was put on hot trails on 19th April 2023. This Sinter Machine has a production capacity of 4.74 MTPA with a waste heat recovery circular cooler and slit I am also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, SEBI, BSE,

NMDC Iron & Steel Plant, Post - Nagarnar (Bastar) C.G. PIN-494001 | CIN: U27310CT2015G0I001618, www.nmdcsteel.nmdc.co.in

its Oxygen Plant on 21st April 2023 and the Hot Strip Mill was up and running on 30th June 2023.

Our Steel Plant is home to India's second largest blast furnace in volume, 4500 cubic meters with Paul Wurth top charging facility. Named after the native deity, the Maa Danteshwari Blast Furnace was lit up on 12th August 2023 and Hot Metal production from NMDC Steel Limited started on 15th August 2023. The torch owards Steel, blowing-in of one of the largest blast furnaces in the country, set the ball rolling for final commissioning.

Soon thereafter, the Steel Melting Shop was operationalized on 21st August 2023. This Steel Melting Shop consists of two Convertors with combined blowing facility to reduce oxygen consumption; two Hot Metal Desulphurisation Stations to reduce blowing time and flux consumption; two Ladle Refining Furnaces to raise temperature and adjust the chemical composition of molten metal; and one RH Degasser to enable production of high-grade Steel.

The Steel Plant's Thin Slab Castor started on 24th August 2023 with a 100% hot charging facility of thin slab through a tunnel furnace to the Hot Strip Mill to minimize energy consumption This Plant is designed to be one of the country's most energy efficient and environmentally conscious Steel Plants, in tandem with the Government of India's vision of producing Sustainable

product - the HR Coll, only 9 days after the production of Hot Metal. Coming as it does from a mining major with no prior experience of steel making, this achievement was historic:

The Plant, once completely operational, will be producing an impressive array of products viz. HR Plates, API - 5L, Quality Plates, HR Sheets, HR Coils, High Carbon Steel, Silicon Steel and

The integrity and quality of Steel from NSL will speak of the diligence of every person on this Project.

On behalf of the Board, I extend our deep gratitude to the I am happy to inform you that Gross Coke, Hot Metal, Pig Iron, administrative Ministry i.e. Ministry of Steel, Government of India, Chhattisgarh State Government, NMDC Management, MECON, and our technology providers - BHEL, TATA Projects, Primetals, Danieli Corus, Thermax, BEC, and Linde for their unflinching support to the Company, which has enabled NSL to grow from strength to strength. This achievement would not have been possible without the support of the Steelmakers of India - SAIL, JSW, and JSPL, who stood with us through the commissioning of the Steel Plant.

burner in the furnace to minimize heat consumption in the NSE and CSE, shareholders, bankers, lenders, creditors for their sintering process. NSL started producing industrial gasses from constant support in this journey. The Board would also like to



commencing the Plant operations

Liquid Steel, and HR Coil is being produced at NSL as per schedule and the ramp up plan is also in order.

The NMDC Steel Plant is a modern sophisticated 3 MTPA capacity Integrated Steel Plant, with a compact layout utilizing only 1800 acres of land, at a sanctioned cost of INR 23,840 crores. With the momentum we have and the support of all our stakeholders, we are geared up to put the Steel Plant in full swing, so as to create value for all our stakeholders and produce Sustainable Steel for India.

Jai Hind

Date: 07.09.2023 Place: Hyderabad

Amitava Mukherjee Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge)

Amitava Mukherjee

Chairman-Cum-Managing Directo

(Additional Charge)

platforms. Wipro, for instance, financialen epan.in

The study added that AI

peers. More than two-thirds of these companies said AI and ML will be crucial for their short-term business goals. in AI use. The study showed that only 15% of the respondents were proactive with their AI deployment com-

At least 57% of respondents say AI, ML are key for near-term goals

committed \$1 billion in investment earlier this year to advance AI development.

and ML are bigger priorities for businesses, where investment in technology is driving profitability faster than the However, there are concerns around ethics and regulations pared to the 40% last year.

Note: The above statement does not purport to be a record of the proceedings of the 08" AGM of NMDC Steel Limited held on 07-09-2023 New Delhi

तापमान

अधिकतम-३६.० न्यूनतम- २४.०

जनसता

26 सितंबर, 2023

सड़क दुघर्टनाओं में बुजुर्ग समेत दो की मौत, छह घायल

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

राजधानी में अलग-अलग इलाकों में हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत छह लोग घायल हो गए। पहली घटना शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में रविवार देर रात घटी। यहां जीटी रोड पर ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबिक ट्रैक्टर पर सवार चार लोग घायल हो गए। वहीं, सोमवार सुबह विजय विहार थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग समेत तीन लोगों को कार चालक ने रौंद दिया। इसमें घायल एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत दो घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में घायल लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है विपरीत शास्त्री पार्क पेट्रोल पंप के पास हादसे और आगे की जांच में जुटी है।

उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त जाय टिर्की ने बताया कि शास्त्री पार्क में घायल हए लोगों की पहचान मेरठ. उत्तर प्रदेश निवासी अनिल (40), सलीम (55), अमन (17) और तिसरे, झारखंड निवासी हरिलाल (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 40 साल है। पर उसके पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी

शास्त्री पार्क में टक और टैक्टर में टक्कर, हादसे में एक की मौत, चार अन्य हुए घायल।

विजय विहार थाना क्षेत्र में कार चालक ने बुजुर्ग समेत तीन लोगों को रौंदा, बुजुर्ग की मौत।

पहचान हो सके। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि चारों लोग रात के वक्त ट्रैक्टर चालक से मदद मांग कर आइएसबीटी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है। जाय टिर्की ने सोमवार को बताया कि

रविवार देर रात 1:39 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को जीटी रोड की ओर सीलमपुर के की सूचना मिली। सूचना देने वाले ने पुलिस को बताया कि ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई है। सचना मिलने के बाद पीसीआर मौके पर पहुंच गई। पीसीआर को मौके पर पांच लोग घायल मिले। पीसीआर पांचों को लेकर अस्पताल गई, जहां चिकित्सकों ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि बाकी घायलों को पहले जग प्रवेश चंद अस्पताल में ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सभी चारों को जीटीबी अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि फिलहाल दोनों वाहन जब्त कर लिए गए हैं और मामला दर्ज कर आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है। दूसरी घटना में रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त ने सोमवार को बताया कि विजय विहार थाना क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर-1 में तेज रफ्तार कार (स्कार्पियो) का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि चालक ने कई गाड़ियों में टक्कर

मार दी। गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति

की मौत हो गई। दुर्घटना में कार चालक ने एक स्कूटी को भी काफी दूर तक घसीटा, जिससे स्कूटी सवार एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपायुक्त ने बताया कि मृतक शख्स की पहचान युनूश (70) के रूप में हुई है। घटना के समय वह नमाज पढ़ कर घर की तरफ लौट रहे थे. तभी हादसे का शिकार हो गए।

वहीं, घायलों की पहचान मां-बेटे स्वर्ण अरोड़ा (63) और कमल (37) के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त दोनों स्कूटी पर सवार थे। फिलहाल दोनों का जयपुर गोल्डन अस्पताल में इलाज चल रहा है।

ट्रक की टक्कर से कंपनी के प्रबंधक की मौत, एक घायल

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

नजफगढ़ थाना क्षेत्र में एक्सप्रेस वे पर टायर बदलने के दौरान एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले प्रबंधक और

हादसे में इलाज के दौरान प्रबंधक की मौत हो गई, जबकि

कर्मचारी को पीछे से आ रहे ट्रक

ने जोरदार टक्कर मार दी।

इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है, जबिक घायल की शिनाख्त मनोज के तौर पर की गई है। अरुण कुमार, झज्जर में परिवार के साथ रहते थे। वह नजफगढ़ स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में प्रबंधक के पद पर तैनात थे। कंपनी के मालिक लोकेश कमार ने बताया कि 22 सितंबर देर रात दो बजे स्टेपनी व जैक लेकर गया था तभी

घायल कर्मचारी का अस्पताल में हादसा हो गया। देल्ली नगर निगम कार्यालय उपायुक्त, लाभकारी परियोजना प्रकोष्ठ

च्चीसवां तल, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002 <u>ई-निविदा - दिल्ली नगर निगम की अधिकृत पार्किंग साइट का</u> मासिक लाइसेंस शुल्क आधार पर आवंटन हेत्

आयुक्त, दिल्ली नगर निगम की ओर से निविदा एनआईटी सं. 1568 दिनांक 25.09.2023 के द्वारा मासिक लाइसेंस शल्क आधार पर दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) में तीन वर्ष की अवधि, जो फर्म के संतोषजनक कार्य प्रदर्शन एवं सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार दो और वर्ष के लिए आगे बढ़ायी जा सकती है, के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 66 अधिकृत पार्किंग साइट (01 कल्सटर सहित) के आवटन हेतू पात्र निविदादाताओं से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाओं का कार्यक्रम निम्नानुसार है:– 1. निविदा डाउनलोड करना प्रारंभ होने की तिथि 26.09.2023 को प्रातः 09.00 बजे से, 2. पूर्व बोली बैठक की तिथि : 04.10.2023 को अपरान्ह 3.00 बजे कान्फ्रैंस हॉल, बीसवां तल, सिविक सेंटर में, **3. निविदा जमा करना** प्रारंभ होने की तिथि: 26.09.2023 को प्रातः 09.00 बजे से, 4. ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 17.10.2023 को अपरान्ह 03.00 बजे तक, 5. तकनीकी बोलियाँ खुलने की तिथि : 18.10.2023 को अपरान्ह 03.00 बजे से, आर.पी. सेल/दि.न.नि. विभाग, पच्चीसवाँ तल, सिविक सेंटर में। विवरण हेतु दि.न.नि. की वेबसाइट : www.mcdonline.nic.in एवं www.etenders.gov.in देखें, संपर्क नंबर - 011-23227514. सहायक आयक्त आर.ओ. नं. 44/डीपीआई/दि.न.नि./2023-24 आर.पी. सेल/दि.न.नि.

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन :L32101DL1986G01023501 पंजीकृत एवं निगम कार्यालय : महानगर दूरसंचार सदन, पंचम तल, 9 सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003. फोन : 011-24319020,

37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में संकल्प संख्या 5 एवं संकल्प संख्या 5 के परिशिष्ट में संशोधन।

यह हमारे दिनांक 31.08.2023 और 06.09.2023 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में है जिसमे कंपनी की **37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)** के बारे में जानकारी दी गई है जं **शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 को सुबह 11:30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्र ऑंडियो विजुअल माध्यम (ओवीएएम) के माध्यम से की जाने वाली है और 37वीं एजीएम की सूचना में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नेयमों के संदर्भ में, संकल्प संख्या 5 और संकल्प संख्या 5 के परिशिष्ट में संशोधन उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, जिन्हें **37वीं एजीएम** की सूचना भेजी गई थी।

37वीं एजीएम की सूचना में संकल्प संख्या 5 और संकल्प संख्या 5 के परिशिष्ट मे संशोधन की प्रति कंपनी की वेबसाइट <u>www.mtnl.net.in</u> पर उपलब्ध होगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') ने कंपनी के सदस्यों की **37वीं वार्षिक** आम बैठक (''एजीएम'') आयोजित करने के लिए दिनांक 31 अगस्त 2023 **(''एजीएम नोटिस'')** और 37वीं एजीएम का परिशिष्ट दिनांक 06.09.2023 जारी किया था, जो **शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को सुबह 11:30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओवीएएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली है। **37वीं एजीएम की सूचना** और **37वीं एजीएम की सूचना** का परिशिष्ट पहले ही 04.09.2023 और 06.09.2023 को उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दिया गया था, जिन्होंने कंपनी के साथ या अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ अपना ई—मेल एड्रेस पंजीकृत किया है।

अब, 37वीं एजीएम की सूचना में संकल्प संख्या 5 और संकल्प संख्या 5 के परिशिष्ट में संशोधन जिसमें शामिल हैं – ''निजी नियोजन के आधार पर गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर के मुद्दे को मंजूरी देना'' जिसे आपकी कंपनी द्वारा संशोधित किया गया है और यह सभी उद्देश्यों के लिए कंपनी की क्रमशः 31 अगस्त, 2023 और 06 सितंबर, 2023 की 37वीं रजीएम की सूचना की मूल सूचना और परिशिष्ट तथा उसमें दिए गए नोट्स का एक अभिन्न अंग होगा।

इसके अनुसार, सभी संबंधित शेयरधारकों, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट, ई–वोटिंग के लिए नियुक्त एजेंसियों, अन्य प्राधिकरणों, नियामकों और गन्य सभी संबंधित व्यक्तियों से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है।

परिशिष्ट में यह संशोधन कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.mtnl.net.in और स्टॉक रक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध है। कृते महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

हस्ता /-स्थानः नई दिल्ली (रतन मनी सुमित) कंपनी सचिव दिनांक: 25.09.2023

उमस भरा रहा राजधानी का मौसम

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

दिल्ली में सोमवार को मौसम उमस भरा रहा और अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के लिए सामान्य तापमान है।

मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज नहीं की गई है। हवा में नमी का स्तर 55 से 93 फीसद के बीच रहा।

संत समाज ने किया प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 25 सितंबर।

उदयनिधि स्टालिन, प्रियंक खड़गे और प्रो चंद्रशेखर आदि की सनातन धर्म के कथित अपमान और विवादित बोल के विरोध में सोमवार को सनातन धर्म समाज सड़क पर उतरा। दिल्ली संत महामण्डल व यनाइटेड हिन्दु फ्रांट की अगुवाई में सैकड़ों की तादात में साधु समाज गेरुआ वस्त्र धारण किए सरोजनी नगर स्थित बस डीपो के पास जमा हुआ और वहां से रैली निकाल तमिलनाडू भवन के नजदीक तक गया व वहां विरोध-प्रदर्शन किया।

पजाब एण्ड सिध बैक

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 13.10.2023

को 11.30 बजे पूर्वा. से 12.30 बजे अप.

मैसर्स सिंघल स्ट्रिप्स लिमिटेड

भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली

श्री प्रेमचंद सिंघल पुत्र बनवारीला

65 एवं 66, खसरा नं. 624,

निगम नं. 440/1,

निदेशक सह गारंटर

श्री शंकर लाल सिंघल

गारंटर / बंधककर्ता

श्रीमती अनीता सिंघल

पत्नी शंकर लाल सिंघल

श्री शंकर लाल सिंघल

श्री अजय कुमार सिंघल

पत्नी श्री प्रेम चंद सिंघल

(मृतक, कानूनी वारिसों

कब्जे की स्थिति : भौतिक कब्जा

पुत्र प्रेम चंद सिंघल

पुत्र प्रेम चंद सिंघल

श्रीमती बिमला देवी

के माध्यम से)

पत्र प्रेम चंद सिंघल

(https://www.bankeauctions.com) पर प्रावधानित ई-नीलामी द्वारा किया जायेगी।

इंडियन बैंक Indian Bank

📤 इलाहाबाद ALLAHARAD

> राजेन्द्र नगर शाखा. गाजियाबाद परिशिष्ट IV

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 का 54] के तहत इंडियन बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में राजेन्द्र शाखा (1643) के साथ कर्जदार मैसर्स अंशुल ट्रेडर्स प्रोपराइटर श्री युवराज कपूर पुत्र श्री तिलक राज कपूर से यहां सूचना में उल्लिखित राशि रु. 83,10,837/- (रुपये तिरासी लाख दस हजार आठ सौ सैंतीस मात्र) का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 04.07.2023 को माँग सूचना निर्गत की थीं।

कर्जदार द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शिक्तयों के उपयोग में 22 सितम्बर, 2023 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार/बंधककर्ता तथा जमानती और जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 04.07.2023 तक राशि **रु. 83.10.837/- (रुपये तिरासी लाख दस हजार आठ सौ सैंतीस मात्र)** तथा उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए इण्डियन बैंक के प्रभार का विषय होगा।

ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

. खसरा नंबर 1713, ग्राम करहेड़ा, न्यू करहेड़ा कॉलोनी, मोहन नगर गाजियाबाद में स्थित संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 100.332 वर्ग मीटर है

पूर्वः सड़क 16 फीट चौड़ी, पश्चिमः प्लॉट

उत्तरः सडक 16 फीट चौडी, दक्षिणः प्लॉट 2. खसरा नंबर 1715, ग्राम करहेड़ा, न्यू करहेड़ा कॉलोनी, मोहन नगर गाजियाबाद में स्थित संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 25.083 वर्ग मीटर

पूर्व: प्लॉट मोनिका कपूर पश्चिम: प्लॉट श्रीमती फूल कौर

उत्तरः 16 फीट चौड़ी सड़क दक्षिणः सुनील कुमार की भूमि 3. प्लॉट नंबर 104. खसरा नंबर 139. तिरूपति गार्डन. 5 नंबर पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग. भट्टा रोड गांव

एसएएमवीईआरटी, प्रथम तल, एनबीसीसी बिल्डिंग, ब्लॉक-३, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023, ई-मेल : ho.samvertical@psb.co.in

[परिशिष्ट-IV-A] अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित सरफैसी अधिनियम

2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सुचना

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय : 09.10.2023

को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. शाहदरा में स्थित सम्पत्ति हेतु

तथा 10.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप., सिविल लाइन्स पर स्थित सम्पत्ति हेतु

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पंजाब एण्ड सिंध बैंक (प्रतिभृत लेनदार)

के अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया था, की बिक्री ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जायेगी। इसकी बिक्री वेब पोर्टल

आवासीय संपत्ति नं. सी 10/11, बी.एम. रोहतगी अपार्टमेंट, 1 राम किशोर रोड, सिविल लाइन्स (आईपी कॉलेज के पीछे), दिल्ली 110054,

क्षेत्रफल 415.15 वर्ग गज (347.12 वर्ग मीटर)। यह बिमला देवी पत्नी प्रेम चंद सिंघल के नाम पर. दस्तावेज संख्या 8815 अतिरित्त

•प्लॉट नं. 64, 65 और 66 पर निर्मित वाणिज्यिक भवन का ईएम. खसरा संख्या 624 एमपीएल क्रमांक 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा

भूतल पर 163.00 वर्ग गज का प्लॉट, कुल 663.00 वर्ग गज के भूखंड क्षेत्र में से, बिमला देवी पत्नी पी.सी. सिंघल के नाम पर।

दिल्ली 110 054 पंजीकरण संख्या 299 के तहत अतिरिक्त पस्तक संख्या 1. खंड संख्या 3013 में पृष्ठ 65-71 पर 24.02.98 को. पंजीकर

•प्लॉट नं. 64, 65 और 66 पर निर्मित वाणिज्यिक भवन का ईएम, खसरा नं 624 एमपीएल नंबर 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली

110 054, पंजीकरण संख्या 310 के माध्यम से अतिरिक्त बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 3013 में 26.02.98 को पंजीकृत, कुल 663.00 वर

•प्लॉट नंबर 64, 65 और 66 खसरा नंबर 624 पर निर्मित वाणिज्यिक भवन का ईएम। एमपीएल संख्या 440/1. भोला नाथ नगर. शाहदरा

दिल्ली 110 054 पंजीकरण संख्या 309 के माध्यम से अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 3013 में दिनांक 26.02.98 को पृष्ठ 119

124 पर पंजीकृत, कुल 663.00 वर्ग गज के भूखंड क्षेत्र में से 100.00 वर्ग गज के भूखंड क्षेत्र के भूतल पर, अनीता सिंघल पत्नी शंकर

•प्लॉट नं. 64, 65 और 66 खसरा नं 624 पर निर्मित वाणिज्यिक भवन का ईएम। एमपीएल नंबर 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा

दिल्ली 110 054, पंजीकरण संख्या 300 के तहत अतिरिक्त बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 3013 में 24.02.98 को पंजीकृत, कुल 663.00

●प्लॉट नं. 64, 65 और 66 खसरा संख्या 624 पर निर्मित वाणिज्यिक भवन का ईएम। एमपीएल संख्या 440/1, भोला नाथ नगर, शाहदरा

दिल्ली 110 054 में स्थित, माप 167.22 वर्ग मीटर, छत के अधिकार के साथ बुक नंबर 1, वॉल्युम नंबर 6759 में पंजीकरण संख्य

19455 के तहत पृष्ठ सं. 121-130 पर तिथि 20.09.2012 को पंजीकृत, भूतल पर 200.00 वर्ग गज के क्षेत्र में, बिमला देवी पत्नी पीसी

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया अग्रलिखित में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें : 1. https://www.bankeauctions.com 2. https://www.punjabandsindbank.co.in

इस नोटिस को नियम 8 (6) सरफेसी सुरक्षा के तहत उधारकर्ता और गारंटरों (एलआर) को 15 दिनों की वैधानिक बिक्री

नोटिस के रूप में भी माना जाएगा। हित (प्रवर्तन) नियम-2002

पुस्तक 1 खंड 2785 पृष्ठ 185-195 दिनांक 29.12.2008 के रूप में पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से ।

गज क्षेत्रफल में से भतल पर 100.00 वर्ग गज का क्षेत्रफल, अजय कमार सिंघल पत्र पीसी सिंघल के नाम पर।

वर्ग गज क्षेत्रफल में से भृतल पर 100.00 वर्ग गज की भृमि, अनीता सिंघल पत्नी शंकर लाल सिंघल के नाम पर

ईएमडी जमा खाता विवरण : खाता नाम : पीएसबी एचओ एसएएमवीईआरटी, खाता सं. ०६०६११०००६८५३, आईएफएससी कोड : PSIB0000606

लाल सिंघल और शंकर लाल सिंघल पुत्र पीसी सिंघल के नाम पर।

Punjab & Sind Bank

अटौर गाजियाबाद यूपी में स्थित, क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर पूर्वः सड़क 25 फीट चौड़ा, पश्चिमः अन्य उत्तरः प्लॉट नंबर 105 दक्षिणः प्लॉट नंबर 103 दिनांक: 22.09.2023

स्थानः गाजियाबाद

दबावग्रस्त आस्तियाँ वसुली शाखा (एसएआरबी $-\mathrm{II}$) करोल बाग, नई दिल्ली (शाखा कोड 51521) 3सरी एवं चौथी मंजिल, स्टेट बैंक हाउस, 18/4 आर्य समाज रोड, करोल बाग,

नई दिल्ली-110005, दूरभाष नं. 011-28752163, फैक्स : 28755674, शाखा ई-मेल : sbi.51521@sbi.co.in

परिशिष्ट-IV-A {नियम 8(6) का प्रावधान देखें} अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना ारतीय स्टेट बैंक (प्रतिभृत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत निम्नलिखित सम्पत्ति/यों पर कब्जा (सांकेतिक/भौतिक) कर लिया है। जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदारों, बंधककर्ताओं एवं जमानतियों को सूचित किया जाता है कि कर्जदारों, जमानतियों तथा बंधककर्ताओं से प्रतिभृत लेनदार नीचे वर्णित राशि की वसूली हेतु निम्नलिखित मामलों में प्रभारित सम्पत्ति/यों की ई-नीलामी (सरफैसी अधिनयम, 2002 के तहत) ''जहाँ है जैसे है,''''जैसा है वैसा ही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर 27.10.2023 को की जायेगी। जमा किया जाने वाला आरक्षित मुल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि⁄समय : 23.10.2023 को 11.0 बजे पूर्वा. से 03.00 बजे अप. इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी बंद होने से पहले एमएसटीसी के पास प्री-बिड ईएमडी जमा कर सकता है। प्री-बिड ईएमडी का क्रेडिट एमएसटीसी के बैंक खाते में भुगतान प्राप्त होने और ई--नीलामी वेबसाइट में ऐसी जानकारी अपडेट होने के बाद ही बोलीदाता को दिया जाएगा। बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोलीदाताओं को, अपने हित में, किसी भी अंतिम समय की समस्या से बचने के लिए बोली-पूर्व ईएमडी राशि पहले ही जमा करने की सलाह दी जाती है।)

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 27.10.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप. तक 4 घंटों के लिए प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित 4 घण्टे बकाया देयताएं जिसकी वसली के लिए आरक्षित मल्य (रु.) सम्पर्क व्यक्ति सम्पत्ति यों का विवरण तथा स्वामित्व धारक का नाम

¥		सम्पत्ति यां बेची जा रही हैं	सम्बास/बा का विवरण सवा स्वामित्व वास्वा का गाम	ईएमडी (आरक्षित मूल्य का 10%)	का नाम				
4	का नाम			संविदा वृद्धि राशि	जग नाम				
1	कर्जदार श्री सतवीर सिंह पुत्र भवानी	24.02.2019 तक रु. 46,02,698.00 (रुपये छियालीस	संपत्ति का स्वामित्वः श्री सतवीर सिंह पुत्र स्व. भवानी सिंह-	रु. 80.16 लाख	श्री डी.एस. बिष्ट				
	सिंह	लाख दो हजार छह सौ अट्ठानवे मात्र) और 25.02.2019 से	संपत्ति का मकान नंबर 276, सूर्य नगर, फेज II, सेक्टर -91, फरीदाबाद -121013	रु. 8.02 लाख	(मो. 9971846693)				
		ब्याज सहित आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि।	संपत्ति का क्षेत्रफल 154.00 वर्ग गज (अर्थात 128.76 वर्ग मीटर) (संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	रु. 0.25 लाख	श्री राजेश कुमार (मो. 9431384994)				
2	· कर्जदार श्री डेविड इमैनुएल,	31.01.2022 तक रु. 23.50.375.00 (रुपये तेईस लाख	संपत्ति का स्वामित्वः श्री डेविड इमैनुएल पुत्र स्वर्गीय श्री पॉल इमैनुएल	रु. 29.00 लाख	श्री डी.एस. बिष्ट				
	श्री डेनिस रिचर्ड इमैनुएल और मिस	पचास हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) और आकस्मिक खर्ची,	आरजेड-बी/15, गांव बिंदापुर के क्षेत्र में स्थित खसरा नंबर 190 में से, कॉलोनी इंद्रा पार्क, उत्तम	रु. 2.90 लाख	(मो. 9971846693)				
	अनुष्का इमैनुएल	लागतों, शुल्कों आदि के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज।	नगर, दिल्ली -110059, माप 73.68 वर्ग मीटर (संपत्ति भौतिक कब्जे में है)	रु. 0.25 लाख	श्री राजेश कुमार (मो. 9431384994)				
3	· कर्जदार मैसर्स ब्लू बेल और उसके	05.12.2015 तक रु. 14,37,226/- (रुपये चौदह लाख	संपत्ति का स्वामित्वः श्री बिमल लोहो पुत्र स्व. उपेन्द्र लोहो	रु. 11.70 लाख	श्री डी.एस. बिष्ट				
	गारंटर श्री बिमल लोहो पुत्र स्व. उपेन्द्र लोहो	सैंतीस हजार दो सौ छब्बीस मात्र) और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज।	फ्री होल्ड आवासीय संपत्ति का इक्विटेबल बंधक, भूखंड संख्या 21 वाली भूमि का समस्त भाग, माप लगभग 2000 वर्ग फुट (यानी 185.87 वर्ग मीटर) मौजा-येरखेड़ा, पी. एच. नंबर 16, राजस्व सर्कल, कैम्पटी में स्थित, फील्ड सर्वे नंबर 39 है और साथ में 100 वर्ग फीट, उस पर अस्थायी	रु. 1.17 लाख	(मो. 9971846693)				
				7. 0.25 (HG	श्री राजेश कुमार (मो. 9431384994)				
			निर्माण, तहसील कैम्पटी और जिला नागपुर में स्थित, श्री बिमल लोहो पुत्र श्री उपेन्द्र लोहो के नाम पर, सीमाएं : उत्तर – सड़क, दक्षिण – प्लॉट नंबर 26, पूर्व – प्लॉट नंबर 22, पश्चिम – प्लॉट नंबर						
			पर, सामाए : उत्तर - सङ्क, दक्षण - प्लाट नवर 20, पूप - प्लाट नवर 22, पाश्चम - प्लाट नवर 20 (संपत्ति भौतिक कब्जे में है)						
ख	खाता/वालेट जिसमें ईएमडी जमा करनी है : मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ इसकी ई-नीलामी साइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकृत संविदाकार के निजी वालेट में एनईएफटी द्वारा। आरक्षित मूल्य की ईएमडी संविदाकार								

द्वारा मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा इसकी ई-नीलामी साइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर अनुरक्षित संविदाकार के अपने बैंक से एनईएफटी के माध्यम से अपने संविदाकार खाते पर सुजित चालान द्वारा अन्तरित किया जाना है। केसी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पडेस्क सं. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 तथा/अथवा अधिकृत प्राधिकारी को कॉल करें। ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :

. यह ई-यह नीलामी ''जहाँ है जैसे है तथा जो है यही है आधार'' पर ''ऑनलाइन'' आयोजित की जायेगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से उनके पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp र संचालित की जायेगी।

. अधिकृत प्राधिकारी के उत्तम ज्ञान तथा सुचना के अनुसार सम्पत्ति/यों पर कोई ऋणभार नहीं है। किन्तु इच्छूक संविदाकार अपनी संविदा जमा करने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी के लिए रखी गयी सम्पत्ति/यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों से सम्बन्धित अपनी निजी स्वतन्त्र पृछताछ कर लें। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिवद्धता या किसी प्रतिनिधान को न तो निर्मित करता है और न निर्मित करेगा। सम्पत्ति बैंक ज्ञात या अज्ञात समस्त वर्तमान तथा भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभृत लेनदार किसी थर्ड पार्टी के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे।

. सफल संविदाकार की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री राशि के अंश के रूप में रख ली जायेगी और असफल संविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल संविदाकार को अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति पर बिक्री मूल्य का 25% तुरन्त जमा करना होगा और बिक्री राशि का शेष बिक्री की तिथि के 15वें दिन या उससे पूर्व अथवा अधिकृत प्राधिकारी के विवेक से लिखित में आपसी सहमित की किसी विस्तारित तिथि तक जमा करना होगा। सफल संविदाकार द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः नीलामी पर रखा जायेगा तथा चूककर्ता संविदाकार का सम्पत्ति/राशि के परिप्रेक्ष्य में कोई अधिकार/दावा नहीं होगा।

. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक के सेवा प्रदाता के वेबपोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp तथा बैंक के पोर्टल https://www.sbi.co.in पर लिंक का सन्दर्भ लें। तिथि : 21.09.2023, स्थान : नई दिल्ली ह./- अधिकृत प्राधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी-क्क, करोल बाग, नई दिल्ली (शाखा कोड 51521)

भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी., कड़कड़डूमा अग्रवाल फन सिटी मॉल, प्रथम तल, सीबीडी ग्राउंड, कड़कड़डूमा, शाहदरा, दिल्ली-110032, फोन: 22380666

नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ३ के साथ पठित धारा १३(२) के अधीन प्रदत 05-2023 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू 18,94,268.00 (रु. अड्डारह लाख । को एक मांग नोटिस दिनांक 03-07-2023 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू चौरान्वे हजार दो सौ अंडसठ मात्र) और दिनांक 02.05.2023 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित 📗 10,96,189.00 (रु. दस लाख छियान्वे हजार एक सौ नवासी मात्र) और दिनांक 03.07. उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वार कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 22.09.2023 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. सी-102, टाईप 2 बी एच के, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), ब्लॉक नं. सी, छत क्षेत्रफल 30.36 वर्ग मी., द्वितीय तल,

78.59 वर्ग मी. और कवर्ड क्षेत्रफल 69.73 वर्ग मी. दिनांक : 22-09-2023, स्थान : दिल्ली

भारतीय रटेट बेंक, आर.ए.सी.पी.सी., कड़कड़डूमा

अग्रवाल फन सिटी मॉल, प्रथम तल, सीबीडी ग्राउंड, कड़कड़डूमा, शाहदरा, दिल्ली-110032, फोन: 22380666 नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति 📗 जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने । भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के 🛮 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार श्री कृष्णा चन्द्रा दुबे** को एक मांग नोटिस दिनांक **14-06-2023 को जारी** किया था जिसमें उल्लेखित राशि **रू 3,27,014.00 (रु.** तीन लाख सत्ताईस हजार चौदह मात्र) और दिनांक 14.06.2023 से भविष्य का ब्याज 9,51,125.00 (रु. नौ लाख इक्यावन हजार एक सौ पच्चीस मात्र) और दिनांक 14.06.2023 इत्यादि सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वा कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसम नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के नियम 8 के साथ पिटत के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 21.09.2023 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के सा लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते राशि रू 3,27,014.00 और दिनांक 14.06.2023 से भविष्य का ब्याज एवं लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. 1031, तृतीय तल, एमआईजी डीडीए **पॉकेट-बी, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, दिल्ली में स्थित,** चौहदी: पूरब में - गली, पश्चिम में खुला स्पेस, उत्तर में – फ्लैट नं. बी–1032, दक्षिण में – फ्लैट नं. बी–1024

दिनांक : 21-09-2023, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक **OSBI**

भारतीय स्टेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी., कड़कड़डूमा अग्रवाल फन सिटी मॉल, प्रथम तल, सीबीडी ग्राउंड, कड़कड़डूमा, शाहदरा, दिल्ली-110032, फोन: 2238<u>0666</u>

नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति 📗 जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ३ के साथ पठित धारा १३(२) के शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार श्री अतुल कुमार एवं श्रीमती पूनम** को एक मांग नोटिस दिनांक 02- 📗 अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **कर्जदार श्री प्रमोद कुमार और श्रीमती लिज़ामा एम एल** 2023 से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के नियम ८ के साथ पठित के अधीन 📗 कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 21.09.2023 को ले लिया है। न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट 📗** विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ

बैंक. के प्रभार वास्ते राशि क 18.94.268.00 और दिनांक 02.05.2023 से भविष्य का ब्याज एवं लिन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते राशि रू 10,96,189.00 और दिनांक 03.07.2023 से भविष्य का ब्याज एवं लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. बी—58 / 22, द्वितीय तल, आसरा तीन मंजिला, ग्रूप हाउसिंग प्रोजेक्ट नामक "स्प्रिंग व्यू फ्लोर्स", रिहायशी टाउनशिप क्रिसेंट 🛮 टाईप —2, आसरा एन्कलेव, सैक्टर—4ए, मंडोला विहार, गाजियाबाद, यू.पी—201102 में **पार्क का हिस्सा, गांव शाहपुर, बम्हेटा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, जिसका क्षेत्रफल │ स्थित,** चौहद्दी : पूरब में ─ फ्लैट नं. बी─58 / 23, पश्चिम में ─ फ्लैट नं. बी─58 / 21, उत्तर में — फ्लैट नं. बी—57 / 23, दक्षिण में — फ्लैट नं. बी—58 / 24

प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक दिनांक : 21-09-2023, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

> भारतीय रटेट बैंक, आर.ए.सी.पी.सी., कड़कड़डूमा **PSBI** अग्रवाल फन सिटी मॉल, प्रथम तल, सीबीडी ग्राउंड, कड़कड़डूमा, शाहदरा, दिल्ली-110032, फोन: 22380666

नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत **कर्जदार श्री राज अरोड़ा और सुश्री सीमा अरोड़ा** को एक मांग नोटिस दिनांक 14-06-2023 को जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि रू

करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार / गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के नियम 8 के साथ पिठत के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत 22.09.2023 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रभार वास्ते राशि रू 9,51,125.00 और दिनांक 14.06.2023 से भविष्य का ब्याज एवं लागत इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एफ / सीए–804, 8वां तल, सिटी अपार्टमेंट, फेज–1, प्लॉट नं. जीएच–6, आदित्य वर्लुड सिटी, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, जिसक सुपर क्षेत्रफल 72.742 वर्ग मी. और FAR क्षेत्रफल 51.963 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब मे – रोड़, पश्चिम में – अन्य प्रौजेक्ट, उत्तर में – रोड़, दक्षिण में – अन्य प्रौजेक्ट (शहरी घर)

दिनांक : 22-09-2023, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक

अधिकत प्राधिकारी : श्री रवि रंजन, मख्य प्रबंधक, मोबाइल : +91-9015605050

शाखा नाम : पंजाब एंड सिंध बैंक, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008





प्राधिकत अधिकारी

(इंयिन बैंक)

ई-नीलामी

(केवल ई-नीलामी

के माध्यम से बिक्री)

बोली जमा करने की अन्तिम

तिथि : 12.10.2023 को 05:00 बजे अप. तक

वर्तमान बकाया

i. 45,43,17,043/- के लि

চ. 90,44,78,620

तिथि 31.08.2023

तक + 01.09.2023

से भावी ब्याज एवं

अन्य व्यय

(राशि लाख में)

ईएमडी राशि

संविदा वृद्धि राशि

1040.00

1.00

750.00

75.00

1.00







नर्ड दिल्ली



